



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 कार्तिक 1937 (श0)

(सं0 पटना 1247) पटना, बुधवार, 4 नवम्बर 2015

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

8 अक्टूबर 2015

एस0ओ0 328 दिनांक 4 नवम्बर 2015—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-02 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 2015	254	4.63 X 4.93	5797.77
फरवरी, 2015	253	4.63 X 4.93	5774.95
मार्च, 2015	254	4.63 X 4.93	5797.77
अप्रैल, 2015	256	4.63 X 4.93	5843.43
मई, 2015	258	4.63 X 4.93	5889.08
जून, 2015	261	4.63 X 4.93	5957.55
योग :-			35060.55

औसत:- 35060.55 ÷ 6 = 5843.42

अनुसूची-1 (ब)

1. अनुसूचित नियोजन का नाम- घरेलू कामगार,
अधिसूचना संख्या-2782, 2783 तिथि 28.09.2011
गजट संख्या- 560 दिनांक 29.09.2011

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि (अकुशल श्रेणी)	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी + दिनांक 01.04.2012 + 01.10.2012+01.04.2013+ 01.10.2013+01.04.2014 +01.10.2014+01.04.2015 से लागू परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.10.2015 से प्रभावी होगी	दि० 01.10. 2015 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	बरतन धोना (प्रति घंटा)	430.00+22.00+18.00+33.00+25.00 +22.00+05.00+26.00 = 581.00	8.00	589.00 प्रतिमाह
2	कपड़ा धोना/बरतनधोना (प्रति घंटा)	430.00+22.00+18.00+33.00+ 25.00+22.00+05.00+26.00=581.00	8.00	589.00 प्रतिमाह
3	बरतन धोना/कपड़ा धोना एक हजार स्काव्यर फीट में पोछा लगाना (प्रति घंटा)	430.00+22.00+18.00+33.00+ 25.00+22.00+05.00+26.00=581.00	8.00	589.00 प्रतिमाह
4	कपड़ा धोना/बरतन धोना/पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा)	3433.00+172.00+144.00+ 262.00+201.00+182.00+35.00+ 206.00=4635.00	68.00	4703.00 प्रतिमाह
5	कपड़ा धोना/बरतन धोना पोछा लगाना/बच्चों की देखभाल करना /बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घरेलू विविध कार्य करना । (08 घंटा)	3433.00+172.00+144.00+262.00 + 201.00+182.00+35.00+ 206.00=4635.00	68.00	4703.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2015 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2015 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम०डब्लू०-401/07 श्र०सं०-3230)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार नं०-1,
सरकार के अवर सचिव।

8 अक्टूबर 2015

एस०ओ० 329, 328, दिनांक 4 नवम्बर 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० 5/एम०डब्लू०-401/07 श्र०सं०-3231)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार नं०-1,
सरकार के अवर सचिव।

The 8th October 2015

S.O. 328 dated the 4th November 2015—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-2 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

SCHEDULE -1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2015	254	4.63 X 4.93	5797.77
February, 2015	253	4.63 X 4.93	5774.95
March, 2015	254	4.63 X 4.93	5797.77
April, 2015	256	4.63 X 4.93	5843.43
May, 2015	258	4.63 X 4.93	5889.08
June, 2015	261	4.63 X 4.93	5957.55
Total			35060.55
Average :- 35060.55 ÷ 6 = 5843.42			

SCHEDULE -1 (B)1- Name of Employment :- **Domestic Workers**

Notification No:- 2782, 2783 date 28.09.2011

Gazette No. - 560 dated 29.09.2011

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Worker	Minimum Wage Fixed + V.D.A from 01.04.2012 + 01.10.2012+01.04.2013 + 01.10.2013+01.04.2014 + 01.10.2014+ 01.04.2015 (In.Rs.)	Amount of V.D.A which is effective from the date- 01.10.2015	Total rates of wages effective from the date 01.10.2015 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1	Washing the utensils (Per hour)	430.00+22.00+18.00+33.00+25.00 +22.00+05.00+26.00 = 581.00	8.00	589.00 Permonth
2	Washing the clothes/ washing the Utensil (Per hour)	430.00+22.00+18.00+33.00 + 25.00+22.00+05.00+26.00 = 581.00	8.00	589.00 Permonth
3	Washing the clothes/ washing the utensil house keeping (A. House of 1000 Sq. ft.) (Per hour)	430.00+22.00+18.00+33.00+25.00 +22.00+05.00+26.00 = 581.00	8.00	589.00 Permonth
4	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children (Eight hours)	3433.00+172.00+144.00+262.00 +201.00+182.00+35.00+206.00 = 4635.00	68.00	4703.00 Permonth
5	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children/ and taking to school and back other miscellaneous domestic works. (Eight hours)	3433.00+172.00+144.00+262.00 + 201.00+182.00+35.00+206.00 = 4635.00	68.00	4703.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in

the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised , there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of Variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June, 2015** will be payable at the aforesaid rates from **October, 2015** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No. 5/M.W.- 401/07 L&R - 3230)

By order of the Governor of Bihar.

ARUN KUMAR NO.-1,

Under Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1247-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>